

प्रमाणित किया जाना
है कि मापी पुस्त मे मशीन
टेकीन 100 एच डि से सहायक
असियत। R.W.D फोन 8121 के
पदनाम से निर्गत किया गया है


Executive Engineer
RWD Works Division
विशेष Pankajayal
1-7-21

Sch. XLV - Form No. 134

पंचसिद्धमाल DIVISION
फोन 8121 SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

1211

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

प्रमाणित किया जाना
है कि मापी पुस्त में मधीन
हकीम 100 रुद्र जि से सहायक
अधिकारी R. W. D फोन हाट के
पदनाम से निगम किया गया है


Executive Engineer
RWD Works Division
विभाग Polandaya
1-7-71

Sch. XLV - Form No. 134

पलंदया DIVISION

फोन हाट SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

1211

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Work — Const. of Road from Phenhora					
Food to Anson Tola.					
Agency - Maa Sishashani Construction					
Agreement No - 14 SB9/2022-23					
Date of work order - 27.09.2022					
Date of Completion - 26.09.23					
Actual date of Completion - 10.4.23					
Abstract of cost					
1/ Const. of road &					
work Road work					
T.M.B/P - 23 = 0.690 Km					
at 8286.68/Km = 5718 =					
2/ Const. of drainage Poles					
- car up job					
T.M.B/P - 23 = 0.690 Km					
at 4800.33/Km = 3312 =					
3/ Clay & gully of road					
lab - car up job					
T.M.B/P - 24 = 0.200 Hect					
at 51137.38/Hect = 10227 =					
4/ Const. of Embankment					
- car up job					
T.M.B/P - 24 = 1057.310 m ²					
at 189.95/m ² = 200836 =					

Continuation

at 2,20,093 =

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				B.P.	2,20,093 ²⁰
$\frac{5}{8}$ Excavation of road					
cut					
T.M.B/P-24 = 59.83 m ²					
					4517 ²⁰
$\frac{6}{10}$ Const of granule sub-					
base - cut					
T.M.B/P-24 = 65.11 m ²					
					1,83215 ²⁰
$\frac{7}{11}$ Paving work in					
cut					
T.M.B/P-24 = 166.065 m ²					
					579,959 ²⁰
$\frac{8}{15}$ Const of Pavement					
cut					
T.M.B/P-25 = 420.30 m ²					
					27,56,613 ²⁰
$\frac{9}{24}$ Paving 4 dry M.H.G sy in					
4 Logs - cut					
T.M.B/P-25 = 2.00 m ²					
					25,344 ²⁰
$\frac{10}{6}$ Const of sub grade & earth					
shoulder - cut					
T.M.B/P-25 = 362.25 m ²					
					69,422 ²⁰

Continuation

Gr 38,34,163²⁰

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					B.F. 3834/6320
$\frac{11}{17}$ P. Paving 24m 5m					
T.M.B. / P-25 = 1.00 Nos					
		2378.34/20			237820
$\frac{12}{18}$ P. Paving 24m 5m					
T.M.B. / P-25 = 3.00 Nos					
		628.85/20			188720
$\frac{13}{22}$ P. Paving 4m 5m Hot-officer					
20/10/10/10 - 100 C.F. 10					
T.M.B. / P-25 = 138.00 Nos					
		724.91/20			9962420
$\frac{14}{25}$ P. Paving 4m 5m Mainline					
Board - 100 C.F. 10					
T.M.B. / P-26 = 2.00 Nos					
		12672.28/20			2534520
$\frac{15}{26}$ P. Paving 4m 5m 600mm Equilateral					
5m 20 -					
T.M.B. / P-26 = 4.00 Nos					
		3478.25/20			1391320
$\frac{16}{27}$ P. Paving 4m 5m 600mm					
Circle 8m 20 -					
T.M.B. / P-26 = 6.00 Nos					
		4727.90/20			2836720
$\frac{17}{28}$ P. Paving 4m 5m 600mm 45m					
rectangle 8m 20 -					
T.M.B. / P-26 = 2.00 Nos					
		4054.18/20			810820

Continuation

40,1378520

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B. D.	
			BFS	4013785 ²⁰
$\frac{18}{9}$ Paving 1. long Bmk.				
5 dy - cur Cfr ph				
T.M. B/P	262	517.	50mL	
		477.06/m		246879 ²⁰
				4260664 ²⁰
Adding				
① Gst @ 18%				766920 ²⁰
② L. cur @ 1%				42607 ²⁰
				5070191 ²⁰
Adding genuine fee				
① Galt. work = 1057.31 m ²				
		34.81/m ²		3680 ²⁰
② G.S.B = 65.11 m ²				
57m to 9.5m = 39.06 m ²				
		620.62/m ²		242412 ²⁰
			@ 10%	2424 ²⁰
9.5m to 2.36m = 15.62 m ²				
		574.58/m ²		8038 ²⁰
			@ 10%	804 ²⁰
2.36m to below = 23.43 m ²				
		119.10/m ²		27912 ²⁰
			@ 10%	279 ²⁰
③ G.M. Gr. III = 166.065 m ²				
53m to 22.4m = 166.065 m ²				
		511.44/m ²		84932 ²⁰
			@ 10%	8493 ²⁰

Continuation

60 5085871²⁰

